

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जनवरी 2019 — माघ 8, शक 1940

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-40/2017/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 432-क की उप-धारा (1) सहपठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (य च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसे व्यक्ति, जो राज्य में नगरपालिक निगम की सीमा के भीतर कूड़ा फेंकाते हैं या उक्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहते हैं, पर जुर्माना अधिरोपित करने तथा स्थल पर ही जुर्माना अभिप्राप्त करने हेतु राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित आदर्श उप-विधियां बनाती है, अर्थात् :-

उप-विधि

1. **संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता तथा प्रारंभ.**— (1) ये उप-विधियां (नगर का नाम.....) नगरपालिक निगम (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) उप-विधियां, 2018 कहलाएंगी।
 - (2) ये उप-विधियां, नगरपालिक निगम के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित होंगी।
 - (3) ये उप-विधियां छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 432-क की उप-धारा (2) या धारा 432-क की उप-धारा (3) के अधीन नगरपालिक निगम द्वारा इनके अंगीकृत किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगी।
2. **परिभाषाएँ.**— (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) तथा इसके अधीन बनाये गये नियम, समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (ख) “अधिनियम, 1986” से अभिप्रेत है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29), समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (ग) “अपराधी” से अभिप्रेत है अपशिष्ट का कोई भी उत्पन्नकर्ता, जो नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण तथा हथालन से संबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है;

- (घ) "नियम 2016" से अभिप्रेत है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) की धारा 3, 6 तथा 25 के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- (ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन उप-विधियों से संलग्न अनुसूची;
- (च) "एसडब्ल्यूएम ठेकेदार" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या संस्था, जिसे निगम या उसके किसी भाग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कोई कार्य तत्समय सौंपा गया हो।
- (2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।
3. **जुर्माने का उद्ग्रहण** — (1) कोई भी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के अधीन उस पर न्यस्त कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है, इन उप-विधियों के अधीन जुर्माने के भुगतान के लिए दायी होगा।
- (2) जुर्माने की मात्रा का अधिरोपण, अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अनुसार किया जायेगा।
4. **जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी.**— आयुक्त, इन उप-विधियों के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने तथा वसूल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा तथा जुर्माना, ऐसे अधिकारी द्वारा, जो स्वच्छता निरीक्षक की श्रेणी से निम्न का न हो, संग्रहित किया जायेगा।
5. **अपराधियों की पहचान करने की रीति तथा जुर्माना का अधिरोपण**— (1) इन उप-विधियों के अधीन जुर्माना, अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के प्रावधानों का निम्नलिखित किसी भी रीति में उल्लंघन करता है, पर स्थल पर ही अधिरोपित और संग्रहित किया जायेगा, अर्थात् :-
- (क) सामान्य दौरा के समय उड़न दस्ता द्वारा किसी को रंगे हाथों पकड़ा जाना;
- (ख) जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यक्ष रहते हुए, किसी सीसीटीवी द्वारा अथवा अन्य किसी कैमरा द्वारा कैद तस्वीर से;
- (ग) एसडब्ल्यूएम ठेकेदार की लिखित रिपोर्ट पर, जो ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित हो, जो जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी को संतुष्ट कर सके;
- (घ) जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी द्वारा सम्यक् जांच के पश्चात् किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त अन्य रिपोर्ट के आधार पर;
- (2) जुर्माने के अधिरोपण तथा संग्रहण पर, प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-1 में मांग पत्र-सह- रसीद, स्थल पर ही अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को जारी किया जायेगा।
6. **भुगतान न किये गये जुर्माने की वसूली.**— वसूली के किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन उप-विधियों के अधीन जुर्माना, यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो जुर्माने के पांच गुना शास्ति सहित, अधिनियम के अधीन निगम की मांगों के बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।
7. **अपील.**— (1) कोई भी व्यक्ति, जो इन उप-विधियों के अधीन जुर्माने के किसी अधिरोपण से व्यथित हो, मेयर-इन-काउंसिल के समक्ष जुर्माने के भुगतान की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, जुर्माने के भुगतान से संबंधित रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए, अपील आवेदन के साथ अपील कर सकेगा।
- (2) इस उप-विधि के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, मेयर-इन-काउंसिल, दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।
8. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**— अधिसूचना क. एफ 5-4/18/ 2011, दिनांक 1 अप्रैल, 2011 द्वारा राजपत्र में अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) उप-विधियाँ, 2010, इन उप-विधियों से असंगतता की सीमा तक एतद्वारा निरसित की जाती हैं।
- परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित उप-विधियों के प्रावधानों के अधीन पारित कोई आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के अंतर्गत पारित आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

आयुक्त,
(नगर का नाम.....)
नगरपालिक निगम,

अनुसूची

स. क. (अपराध कोड क.)	अपराध	जुर्माना (रु. में) प्रथम अपराध के लिये	जुर्माना (रु. में) पश्चातवर्ती तथा/या पुनरावर्ती अपराध के लिये
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को दो अलग शाखाओं में पृथक्कृत अर्थात् गीला अपशिष्ट (जैव निम्नीकरण योग्य) और सूखा अपशिष्ट (गैर जैव निम्नीकरणयोग्य) दो अलग-अलग डिब्बों में पृथक्कृत करने एवं रखने में विफलता।	रु. 100.00	रु. 200.00
(2)	प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों, स्वास्थ्यकर पैड आदि उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में सुरक्षित रूप से रैपिंग करने (लपेटने) या उपयुक्त कोई रैपिंग (लपेटन) सामग्री में तथा शुष्क अपशिष्ट या गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए तात्पर्यित डिब्बे में उसे डालने में विफलता।	रु. 100.00	रु. 200.00
(3)	अपने परिसर से उत्पन्न उद्घानिकी अपशिष्ट और उद्घान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक् रूप से रखने और समय-समय पर नगरीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटारा करने में विफलता।	रु. 500.00	रु. 750.00
(4)	अपने द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, अपने बाहरी परिसर या नाली या जल निकायों में फेंकना या जलाना या गाड़ना। परंतु यदि ठोस अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी भी यदि चाहे तो वह नगरीय निकाय, संस्था, कंशेसिनायर, ठेकेदार या अन्य किसी भी के द्वारा संग्रहित अपशिष्ट को जलाये जाने पर—	रु. 500.00	रु. 750.00
	(क) अधिक मात्रा (ट्रेचिंग ग्राउंड में)	रु. 25,000.00	रु. 50,000.00
	(ख) किसी अन्य खुले स्थान में, उपरोक्त (क) में उल्लिखित मात्रा के अतिरिक्त अल्प मात्रा	रु. 5000.00	रु. 10,000.00
(5)	अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस में निगम को सूचित किये बिना, किसी गैर अनुज्ञापित स्थल पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित करना।	रु. 2000.00	रु. 3000.00
(6)	ऐसे व्यक्ति या ऐसे आयोजन के आयोजक द्वारा, स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रहण या एजेंसी को सौंपने में विफलता।	रु. 500.00	रु. 750.00
(7)	स्ट्रीट वेंडर द्वारा अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, निपटारे योग्य प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचा भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्रों में रखने में विफलता और/या ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफलता।	रु. 200.00	रु. 400.00

(8)	आवास कल्याण और बाजार संघ द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर उत्पन्नकर्ता द्वारा पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण को सुविधापूर्ण बनाने तथा पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहक एजेंसी अथवा पुनर्चक्रकों को प्रदान करने को सुनिश्चित करने में विफलता।	रु. 3000.00	रु. 4500.00
(9)	5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदायों और संस्थानों द्वारा उत्पन्नकर्ताओं द्वारा अपशिष्ट को स्त्रोत पर ही पृथक्कृत करने या पृथक्करण किये गये अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहण करने में विफलता।	रु. 20,000.00	रु. 30,000.00
(10)	होटल और रेस्टोरेंट द्वारा पृथक्कृत अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहित करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में विहित अनुसार अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करने में विफलता।	रु. 2,000.00	रु. 3,000.00
(11)	खुले में शौच करना	रु. 50.00	रु. 100.00
(12)	खुले स्थानों पर पेशाब करना	रु. 20.00	रु. 50.00

प्ररूप-1
[उप-विधि 5(2) देखिये]

(नगर का नाम.....) नगरपालिक निगम

मांग पत्र-सह-रसीद

क. स्थान....., दिनांक.....
श्री/श्रीमती/कु.को

(नगर का नाम.....) नगरपालिक निगम (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) उप-विधियां, 2018 की धारा 5 के अनुसार दोषी पाया गया है।

अतएव, उक्त उप-विधि की अनुसूची के अनुसरण में, अपराध कोड क्र. के लिये जुर्माने के रूप में राशि रुपये की मांग की गई तथा प्राप्त की गई।

रुपये	अपराधी/अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के हस्ताक्षर	जुर्माने की राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	आयुक्त के हस्ताक्षर एवं सील (जुर्माना अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी)
----------------	---	--	---

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 5-40/2017/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-40/2017/18 दिनांक, 18-01-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 18th January 2019

NOTIFICATION

N0. F 5-40/2017/18. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956, (No.23 of 1956) read with clause (zf) of rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016 framed under the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), to impose fines on persons who litter garbage within the limits of the Municipal Corporations in the State or who fail to comply with the provisions of the said rules, and to receive fines on the spot, the State Government, hereby, makes the following Model bye-laws, namely :-

MODEL BYE-LAWS

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These bye-laws shall be called (Name of the City.....) Municipal Corporation (Solid Waste Management) Bye-laws, 2018.
 - (2) These bye-laws shall extend to the urban areas under the administrative jurisdiction of the Municipal Corporations.
 - (3) These bye-laws shall come into force from the date of their adoption by the Municipal Corporations under sub-section (2) of Section 432-A or sub-section (3) of Section 432-A of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956.
2. **Definitions.**— (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and the rules framed there under, as amended from time to time;
 - (b) “Act, 1986” means the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), as amended from time to time;
 - (c) “Offender” means any generator of waste, who acts in contravention of the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016, with regard to the segregation and handling of municipal solid waste;
 - (d) “Rules, 2016” means the Solid Waste Management Rules, 2016 framed under Section 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986);
 - (e) “Schedule” means Schedule appended to these bye-laws;
 - (f) “SWM Contractor” means any person or firm who has been assigned, for the time being, the task of solid waste management in the Corporation or a part thereof.
 - (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Solid Waste Management Rules, 2016, the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), respectively.
3. **Levy of fine.**— (1) Any waste generator, who fails to comply with the duties entrusted upon him under rule 4 of the Solid Waste Management Rules, 2016, shall be liable to pay fine under these bye-laws.
 - (2) The quantum of fine shall be imposed in accordance with the offences mentioned in the Schedule.

4. **Competent Authority to impose fine.**— The Commissioner shall be the Competent Authority to impose and recover fines under these bye-laws and the fine shall be collected by an officer not below the rank of a Sanitation Inspector.
5. **Manner of identifying offenders and imposition of fine.**— (1) The fine under these bye-laws shall be imposed and collected on the spot from the waste generator, who contravenes the provisions of rule 4 of Solid Waste Management Rules, 2016 in any of the following manners, namely :-
- caught red handed by a flying squad in the course of routine beat;
 - by a picture captured by a CCTV or other camera, subject to satisfaction of the Authority empowered to impose fine;
 - on written report of a SWM contractor, supported by evidence to the satisfaction of the Authority empowered to impose fine;
 - on any other report from any other source, after due investigation by the Authority empowered to impose fine.
- (2) On imposition and collection of fine, a Demand Note-cum-Receipt in Form-1 shall be issued to the waste generator by the Authority on the spot.
6. **Recovery of fine not paid.**—Without prejudice to any other means of recovery, a fine under these bye-laws if not paid shall be recovered along with penalty computed at five times of the fine, as arrears of Corporation's claims under the Act.
7. **Appeal.**— (1) Any person, aggrieved by any imposition of fine under these bye-laws may appeal before the Mayor-in-Council within fifteen days of payment of fine, by attaching a copy of the receipt relating to the fine paid with the appeal application.
- (2) On receipt of an application under this bye-law, the Mayor-in-Council shall, after hearing both parties, pass such order as he may deem fit.
8. **Repeal and Savings.**— The Municipal Corporation Solid Waste (Management and Handling) Bye-Laws 2010 notified in the Official Gazette vide Notification No. F 5-4/18/2011, dated April 1st, 2011, to the extent it is inconsistent with these bye-laws is hereby repealed:

Provided that any order passed or action taken under the provisions of the bye-laws so repealed, shall be deemed to have been passed or taken under these rules.

COMMISSIONER,
(Name of the City _____)
Municipal Corporation,

SCHEDULE

Sl. No (Offence Code No)	Offence	Fine (in Rs) for first offence	Fine (in Rs) for subsequent and/or recurring offence
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Failure to segregate and store the waste generated by them in two separate streams namely wet waste (bio-degradable) and dry waste (non biodegradable) in two separate bins.	Rs. 100	Rs. 200
(2)	Failure to wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads, etc. in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material and to place the same in the bin meant for dry waste or non-bio-degradable waste.	Rs. 100	Rs. 200

(3)	Failure to store horticulture waste and garden waste generated from his premises separately in his own premises and dispose of as per the directions of the local body from time to time.	Rs. 500	Rs. 750
(4)	Throwing or burning or burying the solid waste generated by him, on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies: Provided, if solid waste collecting agency, even if it is an Urban Body, Association, Concessionaire, Contractor or anyone else, burn the collected waste-	Rs. 500	Rs. 750
	(a) Excess Amount (In trenching ground)	Rs. 25,000	Rs. 50,000
	(b) In any other open space, small Amount in addition to amount mentioned in (a) above.	Rs. 5,000	Rs. 10,000
(5)	Organizing an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the Corporation at least three working days in advance.	Rs. 2,000	Rs. 3,000
(6)	Failure of such person or the organiser of such event, as specified above, to ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the local body.	Rs. 500	Rs. 750
(7)	Failure of street vendor to keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and/or failure to deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the local body.	Rs. 200	Rs. 400
(8)	Failure of resident welfare and market associations to ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams and facilitate in providing recyclable waste to authorized collecting agency/recyclers	Rs. 3000	Rs. 4500
(9)	Failure of gated communities and institutions with more than 5,000 sqm. area to ensure segregation of waste at source by the generators, to facilitate collection of segregated waste in separate streams.	Rs. 20,000	Rs. 30,000
(10)	Failure of hotels and restaurants to ensure segregation of waste at source as prescribed in the Solid Waste Management Rules, 2016, facilitate collection of segregated waste in separate streams.	Rs. 2000	Rs. 3000
(11)	Open Defecation	Rs. 50	Rs. 100
(12)	Urination in Open spaces	Rs. 20	Rs. 50

FORM I
[See Bye-law 5(2)]

(Name of the City _____), MUNICIPAL CORPORATION

Demand Note-cum-Receipt

No. _____ Place....., dated.....
Shri/Smt./Ku. _____ has been, as per Section 5 of the (Name of the City) Municipal Corporation (Solid Waste Management) Bye-laws, 2018, found guilty.
Therefore, in furtherance of the Schedule of the said bye-laws, a sum of Rupees _____ only, as fine for offence code No. _____ has been demanded and received.

Rs. _____	Signature of the Offender/Waste Generator	Signature of person receiving fine	Signature and Seal of Commissioner (Authority imposing Fine)
-----------	--	---------------------------------------	--

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-40/2017/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 359 सहपठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 के खण्ड (य च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसे व्यक्ति, जो राज्य में नगरपालिका और नगर पंचायत की सीमा के भीतर कूड़ा फैलाते हैं या उक्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहते हैं, पर जुर्माना अधिरोपित करने तथा स्थल पर ही जुर्माना अभिप्राप्त करने हेतु राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित आदर्श उप-विधियां बनाती है, अर्थात् :-

उप-विधि

5. **संक्षिप्त नाम, प्रयोज्यता तथा प्रारंभ.**— (1) ये उप-विधियां (नगर का नाम.....) नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) उप-विधियां, 2018 कहलाएंगी।
 - (2) ये उप-विधियां, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों तक विस्तारित होगी।
 - (3) ये उप-विधियां छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 359 की उप-धारा (2) अथवा धारा 359 की उप-धारा (3) के अधीन नगरपालिका/नगर पंचायत द्वारा इनके अंगीकृत किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगी।
6. **परिभाषाएँ.**— (1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) तथा इसके अधीन बनाये गये नियम, समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (ख) “अधिनियम, 1986” से अभिप्रेत है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29), समय-समय पर यथा संशोधित;
 - (ग) “अपराधी” से अभिप्रेत है अपशिष्ट का कोई भी उत्पन्नकर्ता, जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण तथा हथालन से संबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है;
 - (घ) “नियम 2016” से अभिप्रेत है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) की धारा 3, 6 तथा 25 के अधीन निर्मित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;

- (ड) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन उप-विधियों से संलग्न अनुसूची;
- (च) "एसडब्ल्यूएम ठेकेदार" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति या संस्था, जिसे नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत या उसके किसी भाग में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कोई कार्य तत्समय सौंपा गया हो।
- (2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।
7. **जुर्माने का उद्ग्रहण** — (1) कोई भी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के अधीन उस पर न्यस्त कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है, इन उप-विधियों के अधीन जुर्माने के भुगतान के लिए दायी होगा।
- (2) जुर्माने की मात्रा का अधिरोपण, अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अनुसार किया जायेगा।
8. **जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी**— मुख्य नगरपालिका अधिकारी, इन उप-विधियों के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने तथा वसूल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा जुर्माना, ऐसे अधिकारी द्वारा, जो सहायक राजस्व निरीक्षक/सहायक ग्रेड-तीन की श्रेणी से निम्न का न हो, संग्रहित किया जायेगा।
9. **अपराधियों की पहचान करने की रीति तथा जुर्माना का अधिरोपण**— (1) इन उप-विधियों के अधीन जुर्माना, अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 के प्रावधानों का निम्नलिखित किसी भी रीति में उल्लंघन करता है, पर स्थल पर ही अधिरोपित और संग्रहित किया जायेगा, अर्थात् :—
- (क) सामान्य दौरा के समय उड़न दस्ता द्वारा किसी को रंगे हाथों पकड़ा जाना;
- (ख) जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यक्षीन रहते हुए, किसी सीसीटीवी द्वारा अथवा अन्य किसी कैमरा द्वारा कैद तस्वीर से;
- (ग) एसडब्ल्यूएम ठेकेदार की लिखित रिपोर्ट पर, जो ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित हो, जो जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी को संतुष्ट कर सके;
- (घ) जुर्माना अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी द्वारा सम्यक् जांच के पश्चात् किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त अन्य रिपोर्ट के आधार पर;
- (2) जुर्माने के अधिरोपण तथा संग्रहण पर, प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-1 में मांग पत्र-सह- रसीद, स्थल पर ही अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को जारी किया जायेगा।
10. **भुगतान न किये गये जुर्माने की वसूली**— वसूली के किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन उप-विधियों के अधीन जुर्माना, यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो जुर्माने के पांच गुना शास्ति सहित, अधिनियम के अधीन नगरपालिका/नगर पंचायत की मांगों की बकाया के रूप में वसूल किया जायेगा।
11. **अपील**— (1) कोई भी व्यक्ति, जो इन उप-विधियों के अधीन जुर्माने के किसी अधिरोपण से व्यथित हो, प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के समक्ष जुर्माने के भुगतान की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर, जुर्माने के भुगतान से संबंधित रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए, अपील आवेदन के साथ अपील कर सकेगा।
- (2) इस उप-विधि के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल, दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,

अनुसूची

स. क.	अपराध	जुर्माना (रु. में) प्रथम अपराध के लिये		जुर्माना (रु. में) पश्चातवर्ती तथा/या पुनरावर्ती अपराध के लिये	
		नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत	नगर पालिका परिषद्	नगर पंचायत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को दो अलग शाखाओं में पृथक्कृत अर्थात् गीला अपशिष्ट (जैव-निम्नीकरण योग्य) और सूखा अपशिष्ट (गैर जैव निम्नीकरण योग्य) दो अलग-अलग डिब्बों में पृथक्कृत करने एवं रखने में विफलता।	रु. 50	रु. 30	रु. 100	रु. 50
(2)	प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरो, स्वास्थ्यकर पैड आदि उत्पादों के निर्माताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली में सुरक्षित रूप से रैपिंग करने (लपेटने) या उपयुक्त कोई रैपिंग (लपेटन) सामग्री में तथा शुष्क अपशिष्ट या गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए तात्पर्यित डिब्बे में उसे डालने में विफलता।	रु. 50	रु. 30	रु. 100	रु. 50
(3)	अपने परिसर से उत्पन्न उद्यानिकी अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक् रूप से रखने और समय-समय पर नगरीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटारा करने में विफलता।	रु. 300	रु. 200	रु. 500	रु. 300
(4)	अपने द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, अपने बाहरी परिसर या नाली या जल निकायों में फेंकना या जलाना या गाड़ना। परंतु यदि ठोस अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी भी यदि चाहे तो वह नगरीय निकाय, संस्था, कंशेसिनायर, ठेकेदार या अन्य किसी भी के द्वारा संग्रहित अपशिष्ट को जलाये जाने पर—	रु. 300	रु. 200	रु. 500	रु. 300
	(क) अधिक मात्रा (ट्रेचिंग ग्राउंड में)	रु. 10,000	रु. 5,000	रु. 20,000	रु. 10,000
	(ख) किसी अन्य खुले स्थान में, उपरोक्त (क) के अतिरिक्त अल्प मात्रा	रु. 5,000	रु. 2,500	रु. 10,000	रु. 5,000
(5)	अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस में नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञापित स्थल पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित करना।	रु. 1000	रु. 750	रु. 1500	रु. 1000
(6)	ऐसे व्यक्ति या ऐसे आयोजन के आयोजक द्वारा, स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रहण या एजेंसी को सौंपने में विफलता।	रु. 3000	रु. 2,000	रु. 4,500	रु. 3000

(7)	स्ट्रीट वेंडर द्वारा अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, निपटारे योग्य प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचा भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्रों में रखने में विफलता और/या ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफलता।	रु. 150	रु. 100	रु. 225	रु. 150
(8)	आवास कल्याण और बाजार संघ द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर उत्पन्नकर्ता द्वारा पृथक् करने, पृथक् किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण को सुविधापूर्ण बनाने तथा पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट को प्राधिकृत अपशिष्ट संग्रहक एजेंसी अथवा पुनर्चक्रकों को प्रदान करने को सुनिश्चित करने में विफलता।	रु. 2000	रु. 1000	रु. 3000	रु. 1500
(9)	5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदायों और संस्थानों द्वारा उत्पन्नकर्ताओं द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक्कृत करने या पृथक्करण किये गये अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहण करने में विफलता।	रु. 10,000	रु. 7,000	रु. 15,000	रु. 10,000
(10)	होटल और रेस्टोरेंट द्वारा पृथक्कृत अपशिष्ट को अलग पात्रों में संग्रहित करने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में विहित अनुसार अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करने में विफलता।	रु. 1000	रु. 750	रु. 1500	रु. 1000
(11)	खुले में शौच करना	रु. 50	रु. 30	रु. 80	रु. 50
(12)	खुले स्थानों पर पेशाब करना	रु. 20	रु. 10	रु. 50	रु. 30

प्रारूप-1

[उप-विधि 5(2) देखिये]

(नगर का नाम.....), नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत

मांग पत्र-सह-रसीद

क. स्थान....., दिनांक.....

श्री/श्रीमती/कु.को

(नगर का नाम.....) नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) उप-विधियां, 2018 की धारा 5 के अनुसार दोषी पाया गया है।

अतएव, उक्त उप-विधि के अनुसूची के अनुसरण में, अपराध कोड क्र. के लिये जुर्माने के रूप में राशि रुपये की मांग की गई तथा प्राप्त की गई।

रुपये

अपराधी/अपशिष्ट

जुर्माने की राशि प्राप्त करने

मु.न.पा.अधि. के हस्ताक्षर एवं

.....

उत्पन्नकर्ता के हस्ताक्षर

वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

सील (जुर्माना अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 5-40/2017/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-40/2017/18, दिनांक 18-01-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एम्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 18th January 2019

NOTIFICATION

No. F 5-40/2017/18. — In exercise of the powers conferred by Section 359 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961, (No.37 of 1961) read with clause (zf) of rule 15 of the Solid Waste Management Rules, 2016 framed under the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), to impose fines on persons who litter garbage within the limits of the Municipalities and Nagar Panchayats in the State or who fail to comply with the provisions of the said rules, and to receive fines on the spot, the State Government, hereby, makes the following Model bye-laws, namely :-

MODEL BYE-LAWS

1. **Short title, application and commencement.**— (1) These bye-laws shall be called (Name of the City.....) Municipal Council/Nagar Panchayat (Solid Waste Management) Bye-laws, 2018.
 - (2) These bye-laws shall extend to the urban areas under the administrative jurisdiction of the Municipal Council/Nagar Panchayat.
 - (3) These bye-laws shall come into force from the date of their adoption by the Municipal Councils/Nagar Panchayat under sub-section (2) of Section 359 or sub-section (3) of Section 359 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961.
2. **Definitions.**— (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “Act” means the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and the rules framed there under, as amended from time to time;
 - (b) “Act, 1986” means the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), as amended from time to time;
 - (c) “Offender” means any generator of waste, who acts in contravention of the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 with regard to the segregation and handling of municipal solid waste;
 - (d) “Rules, 2016” means the Solid Waste Management Rules, 2016 framed under Section 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986);
 - (e) “Schedule” means Schedule appended to these bye-laws;
 - (f) “SWM Contractor” means any person or firm who has been assigned, for the time being, the task of solid waste management in the Municipal Council/Nagar Panchayat or a part thereof.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Solid Waste Management Rules, 2016, the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and the Environment (Protection) Act, 1986 (No.29 of 1986), respectively.

3. **Levy of fine.**— (1) Any waste generator, who fails to comply with the duties entrusted upon him under rule 4 of the Solid Waste Management Rules, 2016 shall be liable to pay fine under these bye-laws.
 (2) The quantum of fine shall be imposed in accordance with the offences mentioned in the Schedule.
4. **Competent Authority to impose fine.**— The Chief Municipal Officer shall be the Competent Authority to impose and recover fines under these bye-laws and the fine shall be collected by an officer not below the rank of Assistant Revenue Inspector/Assistant Grade-III.
5. **Manner of identifying offenders and imposition of fine.**— (1) The fine under these bye-laws shall be imposed and collected on the spot from the waste generator, who contravenes the provisions of rule 4 of Solid Waste Management Rules, 2016 in any of the following manners, namely :-
 (a) caught red handed by a flying squad in the course of routine beat;
 (b) by a picture captured by a CCTV or other camera, subject to satisfaction of the Authority empowered to impose fine;
 (c) on written report of a SWM contractor, supported by evidence to the satisfaction of the Authority empowered to impose fine;
 (d) on any other report from any other source, after due investigation by the Authority empowered to impose fine.
 (2) On imposition and collection of fine a Demand Note-cum-Receipt in Form-1 shall be issued to the waste generator by the Authority on the spot.
6. **Recovery of fine not paid.**— Without prejudice to any other means of recovery, a fine under these bye-laws if not paid shall be recovered along with penalty computed at five times of the fine, as arrears of Municipality's/Nagar Panchayat's claims under the Act.
7. **Appeal.**— (1) Any person, aggrieved by any imposition of fine under these bye-laws may appeal before the President-in-Council within fifteen days of payment of fine, by attaching a copy of the receipt relating to the fine paid with the appeal application.
 (2) On receipt of an application under this bye-law, the President-in-Council shall, after hearing both parties, pass such order as he may deems fit.

Chief Municipal Officer
 Municipal Council/Nagar Panchayat,

SCHEDULE

S. No. (Offence Code No)	Offence	Fine (in Rs) for first offence		Fine (in Rs) for subsequent and/or recurring offence	
		Municipal Council	Nagar Panchayat	Municipal Council	Nagar Panchayat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	Failure to segregate and store the waste generated by them in two separate streams namely wet waste (bio-degradable) and dry waste (non biodegradable) in two separate bins.	Rs. 50	Rs. 30	Rs. 100	Rs. 50

(2)	Failure to wrap securely the used sanitary waste like diapers, sanitary pads, etc., in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material and to place the same in the bin meant for dry waste or non-bio-degradable waste.	Rs. 50	Rs. 30	Rs. 100	Rs. 50
(3)	Failure to store horticulture waste and garden waste generated from his premises separately in his own premises and dispose of as per the directions of the local body from time to time.	Rs. 300	Rs. 200	Rs. 500	Rs. 300
(4)	Throwing or burning or burying the solid waste generated by him, on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies: Provided, if solid waste collecting agency even if it is urban bodies, Association, concessionaire, Contractor or anyone else burn the collected waste-	Rs. 300	Rs. 200	Rs. 500	Rs. 300
	(a) Excess Amount (In trenching ground).	Rs.10,000	Rs.5,000	Rs.20,000	Rs.10,000
	(c) In any other open space, small Amount in addition to (a) above.	Rs. 5,000	Rs. 2,500	Rs. 10,000	Rs. 5,000
(5)	Organizing an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the Municipal Council/Nagar Panchayat at least three working days in advance.	Rs. 1000	Rs. 750	Rs. 1500	Rs. 1000
(6)	Failure of such person or the organiser of such event to ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the local body.	Rs. 3000	Rs. 2000	Rs. 4500	Rs. 3000
(7)	Failure of street vendor to keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and/or failure to deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the local body.	Rs. 150	Rs. 100	Rs. 225	Rs. 150

(8)	Failure of resident welfare and market associations to ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams and facilitate in providing recyclable waste to authorized collecting agency/recyclers	Rs. 2000	Rs. 1000	Rs. 3000	Rs. 1500
(9)	Failure of gated communities and institutions with more than 5,000 sqm. area to ensure segregation of waste at source by the Generators, to facilitate collection of segregated waste in separate streams.	Rs. 10,000	Rs. 7,000	Rs. 15,000	Rs. 10,000
(10)	Failure of hotels and restaurants to ensure segregation of waste at source as prescribed in the Solid Waste Management Rules, 2016, to facilitate collection of segregated waste in separate streams.	Rs. 1000	Rs. 750	Rs. 1500	Rs. 1000
(11)	Open Defecation	Rs. 50	Rs. 30	Rs. 80	Rs. 50
(12)	Urination in Open spaces	Rs. 20	Rs. 10	Rs. 50	Rs. 30

FORM I
[See Bye-law 5(2)]

(Name of the City-----), MUNICIPAL COUNCIL/NAGAR PANCHAYAT

Demand Note-cum-Receipt

No. _____ Place....., dated.....
Shri/Smt./Ku. _____ has been, as per Section 5 of the (Name of the City-----),
Municipal Council/Nagar Panchayat (Solid Waste Management) Bye-laws, 2018, found guilty.
Therefore, in furtherance of the Schedule of the said bye-laws, a sum of Rupees _____ only, as
fine for offence code No. _____ has been demanded and received.

Rs. _____

Signature of the
Offender/Waste Generator

Signature of person receiving
fine

Signature and
Seal of CMO
(Authority
imposing Fine)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.